

डकैती का 25000 रु0 का इनामिया अभियुक्त एक अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु **पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर** द्वारा इनामिया/वान्छित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल मार्ग निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक बासगाव के नेतृत्व मे थानाध्यक्ष गगहा राज प्रकाश सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रधान यादव मय हमराह का0 दीपू कुंवर ,का0 नन्दलाल गौड़, का0 विजय यादव ,का0 विनित कुमार यादव मय बोलेरो सरकारी नं0 UP 53 AG 1358 के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधी चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन जगदीशपुर भलुआन में चेकिंग कर रहे थे जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि तीन बदमाश कौड़ीराम की तरफ आ रहे हैं जो सकरी ग्राम के ईट भट्टा में डकैती को अंजाम दे चुके हैं तथा अन्य घटना के फिराक में है यदि जल्द किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं कि मुखबीरी खास के सूचना पर विश्वास कर चवरिया बुजुर्ग से कौड़ीराम बाईपास के पास चेकिंग करने लगे कि एक मोटरसाईकिल कौड़ीराम की तरफ से आते हुये दिखाई दिया कि हम पुलिस वाले सतर्कता से चेकिंग करने लगे मोटरसाईकिल के पीछे आते हुये वाहनो की लाईट से मोटरसाईकिल पर बैठे तीन व्यक्ति दिखाई दिये नजदिक आने पर टार्च की रोशनी से मोटरसाईकिल को रोकने का ईशारा किया गया तो हम पुलिस वालो को देखकर कौड़ीराम बाईपास की तरफ मुड़कर भागने लगा कि हम पुलिस वाले पीछा करके आगे बढे पुलिया के पास कच्ची मिट्टी में मोटरसाईकिल चालक लड़खड़ा गया जिससे मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाईकिल से गिर गया गिरे हुये व्यक्ति व मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्तियों द्वारा हम पुलिस वालो के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने लगे कि हम पुलिस वाले पैदल भागते हुए व्यक्ति को दौड़ाकर पुलिया के पास घेरघार कर पकड़ लिये मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति भागने में सफल रहे पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम छोटक पुत्र ढोड़ी उर्फ तुडी निवासी ग्राम केसरुआ थाना सुखपुरा जनपद बलिया व स्थाई पता निकट राज पैलेस दक्षिण टोला थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ बताया पकड़े गये अभियुक्त छोटक उपरोक्त से भागे हुए अभियुक्तो के बारे में पूछा गया तो उनका नाम पता क्रमशः वीरेन्द्र पुत्र श्रीनाथ सिंह निवासी ग्राम छीवी खरौनी थाना रसड़ा जनपद बलिया 2- टेंगर पुत्र हरेन्द्र नट निवासी ग्राम खड़हाटाड़ थाना गड़वार जनपद बलिया बताया जो थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 736/2020 धारा 395/412/342/354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त हैं गिरफ्तारी अभियुक्त छोटक उपरोक्त को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

छोटक पुत्र ढोड़ी उर्फ तुडी निवासी ग्राम केसरुआ थाना सुखपुरा जनपद बलिया स्थाई पता निकट राज पैलेस दक्षिण टोला थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ यथा मु0अ0सं0 736/2020 धारा 395/412/342/354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट

बरामदगी का विवरण -

एक अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

चवरिया से कौड़ीराम बाईपास रोड पर पुलिया के पास बहद ग्राम चवरिया बुजुर्ग दिनांक 05.02.2021 व समय 00.30 बजे रात्रि

अपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 736/2020 धारा 395/412/342/354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गगहा, गोरखपुर
- 2- मु0अ0सं0 39/2021 धारा 307 भादवि थाना गगहा, गोरखपुर
- 3- मु0अ0सं0 40/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गगहा, गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण -

- (1) श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (2) उ0नि0 प्रधान यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (3) का0 दीपू कुंवर थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (4) का0 नन्दलाल गौड़ थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (5) का0 विजय यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (6) का0 विनित कुमार यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर